

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]	नई दिल्ली, शनिवार, मई 5—मई 11, 2018 (वैशाख 15, 1940)
No. 18]	NEW DELHI, SATURDAY, MAY 5—MAY 11, 2018 (VAISAKHA 15, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 4]

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2018

सेना शाखा

सं. 63 दिनांक 26.03.2018 राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले0 कर्नल बनाया जाता है

मेजर सिद्धार्थ शर्मा	(टीए-42534)	(इन्फैन्ट्री)	29 अक्टूबर 2017
मेजर चुवोनन लोंगकुमेर	(टीए-42545)	(इन्फैन्ट्री)	25 नवम्बर 2017

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन संजय प्रभाकर रोले	(टीए-42649)	(इन्फैन्ट्री)	05 जून 2017
कैप्टन खबर खान अफरीदी	(टीए-42697)	(इन्फैन्ट्री)	05 जून 2017
कैप्टन रुबल दिलप्रीत सिंह	(टीए-42743)	(इन्फैन्ट्री)	04 सितम्बर 2017

सुदर्शन कुमार

अवर सचिव

सं. 64

दिनांक 27.03.2018

नई दिल्ली
सेना शाखा

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं

नियमित सेना

अल्प-कालीन सेवा कमीशन(मैन)

ले. से कप्तान

एस.एस. सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
47829	उमर कमाल	एविएशन	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47830	विकास यादव	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47831	विकास थाकन	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47832	प्रकाश सिंह	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47833	अशोक कुमार शुक्ला	मैक	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47834	अजय सिंह सामन्त	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47835	वीरेन्द्र सिंह	जैग	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47837	गणेश कुमार हंस	ए एस सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47838	अरुण	ए ए डी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47839	निखिल कुमार	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47840	दीपक पूनिया	एविएशन	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47841	साहिल आहूजा	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47843	ललित कुमार डोगरा	इंजिनियर्स	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47844	पुनीत कुमार	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47845	गोपाल सिंह	इंजिनियर्स	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47846	रितेश कुमार	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47847	प्रशान्त सक्सेना	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47848	मदण्णा एम आर	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17

47849	कुलदीप	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47850	गुरनूर सिंह भंगु	ए एस सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47851	योगेश्वर सिंह जामवाल	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47852	गुरताज सिंह	ए सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47853	पवार संकेत अपसाहेब	ए वी एन	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47854	अंकुश शर्मा	सिग्नलस	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47855	विश्वजीत सिंह सोलंकी	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47857	ट्रीशाम शैकिया	मैक	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47858	प्रतीक ठाकुर	ई एम ई	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47859	सत्येन्द्र सिंह राठौर	ए सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47860	लेशराम जेमशन सिंह	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47861	अनिरुद्ध सुब्बा	इंजिनियर्स	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47862	यूत्तम कुमार बी जादव	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47863	नितिन कुमार यादव	ए ए डी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47864	अजीत सिंह	ए ओ सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47865	मोहम्मद शोयब मोहम्मद शब्बीर	ए ए डी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47866	अंकित सिंह	सिग्नलस	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47867	विकास सिंह गुसाँई	इंजिनियर्स	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47868	जोना हलम	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47869	सिद्धान्त शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47870	अखिल ठाकुर	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47871	आदित्यप्रताप सिंह बाघेल	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47872	वीपुल कुमार सिंह	मैक	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47873	बागुल संदीप गुलाबराय	ए एस सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47874	एस किरथीवर्मन	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47875	शुभम पाण्डे	इंट	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47876	हर्षवीर सिंह	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47877	आशीश जेडियोन पावदेल	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47878	विकाश राय	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47879	कुलकर्णी रोहित अरुण	ई एम ई	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47880	तुषार जाखड़	ए सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47881	पंकज सिंह	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47884	आदित्य वैभव अस्थाना	एविएशन	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47885	मुकेश कुमार	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47887	पारथो कातयायन	जैग	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17

47888	विप्लव चौहान	ए ओ सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47890	चैतानो जोना माइकल	जैग	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47893	अरमानदीप सिंह वाहद	ए सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47894	राज हंस	इंजिनियर्स	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47895	नितिन कुमार	एविएशन	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47897	अभिषेक दुबे	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47898	आकाश वशिष्ठ	जैग	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47899	शंकर डी अनबु	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47900	हनीश कथूरिया	ए एस सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47902	योगेश लाम्बा	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47903	प्रदीप कुमार सी एस	ई एम ई	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47904	रीषभ पाण्डे	ए सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47906	शिवराज सिंह राठौर	ए सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47907	प्रनीत कुमार	एविएशन	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47909	वी वी वैशाख	ए ए डी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47910	अनुज गाद्रे	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47912	रामसागर पाण्डे	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47913	प्रशान्त अग्निहोत्री	इंजिनियर्स	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47914	दिवाकर शर्मा	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47915	अमनदीप जाखड़	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47916	प्रदीप शर्मा	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47917	प्रयांशु मॉर्या	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47918	रवि प्रताप	मैक	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47919	तनवीर सिंह मान	ए सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47921	सिमरणजीत सिंह वालिया	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47922	जे अजेन्दर	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47923	कृष्णमूर्ति के	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47924	मोहम्मद जीशान अली	ए ओ सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47926	रजत सिंह	मैक	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47929	तनुश सांगवान	ए एस सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47930	संदीप सिंह	इन्फैन्ट्री	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47931	संदीप सिंह	जैग	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47932	अमित कुमार दहिया	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47933	अचिंत सिंह चावला	ए ओ सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47934	विश्वनाथ प्रताप सिंह पटेल	ए ओ सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47935	अमित शर्मा	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17

47937	दीपक शरोहा	सिग्नलस	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47939	प्रतीकक्षीत राज तेवारी	ए ए डी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47940	अर्जुन सिंह चौहान	जैग	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47941	रवींद्र सिंह	ए एस सी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17
47942	भानु प्रताप सिंह	आर्टी	14 मार्च 15	एस.एस.सी. 99(एन टी)	14 अक्टूबर 15	14 अक्टूबर 17

ले. से कप्तान

एस.एस. सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
48971	शितिज सेकर	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
48973	राहुल विश्वास	ए एस सी	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
48974	अरुण ए	सिग्नलस	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
48979	सैय्यद अशद अहमद	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
48989	आदित्य शर्मा	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
48992	अजय कुमार चन्द	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
48994	अवतार सिंह	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
48998	शेक आजाद हुसैन	आर्टी	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
48999	अभिषेक महाजन	आर्टी	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49000	कण्णन एस	एविएशन	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49001	आशिम	एविएशन	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49003	अमित सिंह	ई एम ई	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49004	नवनीत सिंह	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49005	आकाश भाटली	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49012	वण्श कपूर	मैक	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49013	श्रीकांत संतोष	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49015	हरमनजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49016	जितिन के अजित	सिग्नलस	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49017	कुशाग्र ओबेरॉय	आर्टी	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49023	अन्तरप्रीत सिंह	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49024	पारस शर्मा	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49028	हेमंत शर्मा	ई एम ई	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49029	गौरव तिवारी	आर्टी	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49030	करेईगण्डेइशवरन ब	आर्टी	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49033	अक्षय रस्तोगी	मैक	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49036	हरेन्द्र सिंह	ई एम ई	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49037	ऐ के एस कोगुल	आर्टी	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49040	शैबाज ताबुल नाईक	ए सी	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49043	रवि कुमार सिंह जादौन	ए ओ सी	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49047	शुभम् जायसवाल	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49050	देवेश सिंह कटियार	एविएशन	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49051	अंकित अहुजा	एविएशन	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49053	कार्तिकेयन वी	ई एम ई	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17

49056	देशमुख अजिनक्या विजय	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49062	दीपक अहलावत	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49063	अनमोल शर्मा	इन्फैन्ट्री	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49065	सक्तिवेल वी	एविएशन	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49067	अमन अरोरा	इंजिनियर्स	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49068	मादिशेटी पृथ्वी कृष्ण	ई एम ई	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49069	दानिश सोढी	ई एम ई	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49075	रोहन	सिग्नलस	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49077	विष्णु के	सिग्नलस	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17
49079	गुरतेज सिंह	ई एम ई	13 सितम्बर 15	एस.एस.सी. 45(टी)	13 अक्टूबर 15	13 अक्टूबर 17

एम पी शर्मा
उप निदेशक
एम एस 8सी
06 अप्रैल 2018

(थल सेना शाखा)

नं० 65 दिनांक 28.03.2018.

राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं।

(स्थायी थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी सूबेदार (फार्मासिस्ट)

पद	नाम	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
नायब सूबेदार	ऐ गनना सिंह	जेसी-698888वाई	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	मनोज कुमार शर्मा	जेसी-698889एफ	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	मुरुगन के के	जेसी-698890डब्लू	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	महेन्द्रन पी	जेसी-698891वाई	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	कौशलेश कुमार शुक्ला	जेसी-698892एफ	03 नवम्बर 2015

नायब सूबेदार	आर के मगेश	जेसी-698929एक्स	01 नवम्बर 2015
('सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	पुरन सिंह बिष्ट	जेसी-698893के	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	टी सेलवम	जेसी-699076एक्स	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	सतीश कुमार एस	जेसी-699223पी	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	बीरेन्द्र कुमार सिंह	जेसी-698894एम	01 दिसम्बर 2015

नायब सूबेदार	धरम सिंह	जेसी-699096एल	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	संखधर द्विवेदी	जेसी-699097एन	01 दिसम्बर 2015
नायब सूबेदार	राम पाल सिंह	जेसी-699132एल	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	सेन्थिल नाथन डी	जेसी-699112एक्स	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	विभुते सन्दीप महादेव	जेसी-698895पी	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	रमेश कुमार अग्निहोत्री	जेसी-699133एन	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	जगदीष सिंह बजेथा	जेसी-698896एक्स	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	कृष्ण मुरारी शर्मा	जेसी-699052एन	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	कोठारे सुभाष तात्या राम	जेसी-698897ए	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	जाधव भास्कर महदू	जेसी-698982एच	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	खजान सिंह	जेसी-698898एच	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	शशी प्रकाश शर्मा	जेसी-698899एल	20 मई 2016''
नायब सूबेदार	बाल किशोर राजपूत	जेसी-698900पी	24 मई 2016''
नायब सूबेदार	मोरे गजानन सूर्याभान	जेसी-698930एम	16 मई 2016''
("सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	हदियाल हरिश सावजी	जेसी-699099वाई	21 जून 2016'''
नायब सूबेदार	नरसिम्हा राव नदीमिन्ती	जेसी-698901एक्स	27 अगस्त 2016'''
नायब सूबेदार	आर जयारमन	जेसी-699077ए	28 जुलाई 2016'''
नायब सूबेदार	गनार नितिन शेश राव	जेसी-698902ए	15 जुलाई 2016'''

नायब सूबेदार	त्रिलोक सिंह	जेसी-699113ए	16 जून 2016'''
('''सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	साहब सिंह	जेसी-699098डब्लू	06 सितम्बर 2016''''
(''''सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 11 जून 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राज किशोर प्रसाद	जेसी-698903एच	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	संजय कुमार चौधरी	जेसी-699114एच	18 जुलाई 2016 /
(/सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 11 जुलाई 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सुभाष चन्द्र	जेसी-699155एम	01 सितम्बर 2016

नायब सूबेदार	इमनावती पोन्नोनर	जेसी-698904एल	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	तियतेम्सू लोंग कुमेर	जेसी-699078एच	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	रियाज अहमद बाबा	जेसी-699280डबलू	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	स्थनप्पा आर	जेसी-699281वाई	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	ए धान्चेयन	जेसी-699282एफ	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	मुरुगेसन जी	जेसी-699283के	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	जयराज आर	जेसी-699284एम	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	कृष्ण कुमार वी एस	जेसी-699416पी	21 सितम्बर 2016 / /
(/ / सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 11 सितम्बर 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	ए रामा रैडडी	जेसी-699417एक्स	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार बराला	जेसी-699418ए	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	गोरपडे नितीन भगवान	जेसी-699419एच	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र प्रसाद	जेसी-699524वाई	13 अक्टूबर 2016 / / /
(/ / / सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	कदलागे तुकाराम महादेव	जेसी-699525एफ	04 नवम्बर 2016+
नायब सूबेदार	श्रीधरन एस	जेसी-699526के	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	अरिहारा बारथी पी जी	जेसी-700003ए	01 नवम्बर 2016
(+सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जायेगी।)			

नायब सूबेदार	एम थंगम	जेसी-699752एफ	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार	सुरेश सिंह पायल	जेसी-699664एल	14 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	दीपक अधिकारी	जेसी-699751वाई	10 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	नरेन्द्र कुमार रावत	जेसी-699816एफ	10 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	शेख अजीस शेख मोहम्मद	जेसी-699916एम	11 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	सरवेन्द्र सिंह	जेसी-699917पी	10 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	राम चन्द्र यादव	जेसी-699918एक्स	13 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	कन्ही राम	जेसी-699919ए	13 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	अतुल तिवारी	जेसी-699920पी	10 दिसम्बर 2016++

नायब सूबेदार	धीरेन्द्र कुमार सिंह	जेसी-699921एक्स	09 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	पूनसोलई एस	जेसी-699969एल	09 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	डी वेंकाटेशन	जेसी-699922ए	14 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	जी शंकर गनेश	जेसी-699923एच	28 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	प्रसाद आर	जेसी-699924एल	26 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	चेलापान्डी एन	जेसी-699925एन	14 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	मनोज आर	जेसी-700156के	11 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	रमेश चन्द्रा गरकोटी	जेसी-700170डबलू	11 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	वी मुनीयान्डी	जेसी-700114एक्स	10 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	कुमार एम	जेसी-700115ए	21 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	गरीश नारायन तिवारी	जेसी-700116एच	10 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	एम मुरलीधरन	जेसी-700117एल	15 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	चन्द्रा सेकरन टी	जेसी-700118एन	11 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	एस श्रीनिवासन	जेसी-700119डबलू	11 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	शन्मुगम जे	जेसी-700120एल	10 दिसम्बर 2016++

नायब सूबेदार	सी राजा सेकरन	जेसी-700121एन	14 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	एम असोकन	जेसी-700211पी	13 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	योगेन्द्र सिंह	जेसी-701820एल	10 जून 2017++
नायब सूबेदार	सी एच लक्ष्मी नारायण रेड्डी	जेसी-700354पी	14 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	निर्मल कुमार सिद्धान्त	जेसी-700355एक्स	13 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	नटराजन पी	जेसी-701821एन	05 जुलाई 2017++
नायब सूबेदार	वी गोविन्दन	जेसी-700436एक्स	12 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	मनोरंजन कुमार	जेसी-700465एम	10 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	अदवैत्या प्रसाद प्रधान	जेसी-700523एल	06 जनवरी 2017++
नायब सूबेदार	के एस उमामहेश्वरन	जेसी-700524एन	17 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश सिंह	जेसी-701009एन	12 मई 2017++
नायब सूबेदार	श्यामल कुमार मन्दल	जेसी-700526वाई	10 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	जॉयदेव बेरा	जेसी-701214पी	10 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	जाधव हनुमंत सुबराव	जेसी-701010एच	15 अप्रैल 2017++
नायब सूबेदार	बृज मोहन शर्मा	जेसी-700713एक्स	11 जनवरी 2017++
नायब सूबेदार	पंकज सलारिया	जेसी-701426ए	21 जून 2017++

नायब सूबेदार	मुरालीधरन एन	जेसी-700766डब्लू	15 मार्च 2017++
नायब सूबेदार	हरी शंकर भट्ट	जेसी-700790एम	10 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	मनोज कुमार जोशी	जेसी-701427एच	16 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	लक्ष्मण बेहरा	जेसी-700860ए	10 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	पान सिंह	जेसी-700861एच	19 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	राजेश आर एम	जेसी-700862एल	09 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	जीतेन्द्र कुमार त्रिपाठी	जेसी-700890एक्स	07 जनवरी 2017++
नायब सूबेदार	गुरमीत सिंह	जेसी-701565के	16 जून 2017++
नायब सूबेदार	सूरज करमाकर	जेसी-701522पी	25 सितम्बर 2017++

नायब सूबेदार	रजनी कांत प्रधान	जेसी-700941ए	09 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	शिव कुमार	जेसी-700942एच	20 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	अशोक कुमार	जेसी-700943एल	17 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	दिलीप कुमार पाण्डे	जेसी-701282एच	02 फरवरी 2017++
नायब सूबेदार	रामर के	जेसी-701566एम	11 अगस्त 2017++
नायब सूबेदार	सुभाश चन्द	जेसी-700944एन	13 दिसम्बर 2016++
नायब सूबेदार	एस रामदास	जेसी-700953पी	13 दिसम्बर 2016++

(++सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	एस सूसई मनीकम	जेसी-700954एक्स	28 जनवरी 2017+++
नायब सूबेदार	मदन मोहन महापत्रा	जेसी-700955ए	30 जनवरी 2017+++

(+++सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	अनील दलकोटी	जेसी-700956एच	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	पाटील राजेन्द्र शिवाजी	जेसी-701165एक्स	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	हरी मोहन	जेसी-701166ए	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	टेक चन्द्रा त्यागी	जेसी-701298एन	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	मनोज कुमार उपाध्याय	जेसी-701283एल	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	अमिताभ सिंह	जेसी-701224वाई	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	दुबे लाल साहू	जेसी-701225एफ	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	भास्कर दास	जेसी-701253एन	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	रोहित कुमार साहू	जेसी-701254डब्लू	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	राजन सिंह	जेसी-701226के	16 सितम्बर 2017!
नायब सूबेदार	नरेन्द्रा सिंह	जेसी-701227एम	19 अप्रैल 2017!

(!सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	सतेन्द्र सिंह असवाल	जेसी-701310के	01 अप्रैल 2017
--------------	---------------------	---------------	----------------

नायब सूबेदार	पवार सुरेश तुलसीदास	जेसी-701355के	25 सितम्बर 2017!!
नायब सूबेदार	रोहीतासव कुमार लिंगरी	जेसी-701311एम	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	नरेन्द्र कुमार त्यागी	जेसी-701428एल	01 अप्रैल 2017
(!!सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	धुन्कल राम	जेसी-701523एक्स	25 सितम्बर 2017!!!
(!!!सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जायेगी।)			

(स्थायी थल सेना)

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी सूबेदार (एस टी ए)

पद	नाम	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
नायब सूबेदार	निर्मल सिलवरा एस	जेसी-699529एक्स	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार	राम किशन	जेसी-699904एक्स	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	गनेश सिंह गोबरी	जेसी-699905ए	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	श्री रमेश कुमार पी	जेसी-700068एन	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	प्रिया कुमार डी	जेसी-700069डब्लू	01 अप्रैल 2016

नायब सूबेदार	अशोक कुमार	जेसी-700169एफ	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	मुकेश चन्द गैरोला	जेसी-700130पी	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	मोहम्मद आजम	जेसी-700132ए	25 जुलाई 2016'
('सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	रंजन कुमार सिंह	जेसी-700434एम	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	लखविन्दर सिंह	जेसी-700735डब्लू	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	थि थमीझारासु	जेसी-700773एम	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	अब्दुल रशीद के सी	जेसी-701012एन	02 जनवरी 2017''
(''सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी।)			

स्थायी सूबेदार (नर्सिंग सहायक)

पद	नाम	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
नायब सूबेदार	सुनील कुमार थापा	जेसी-699262एन	03 अगस्त 2017
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कौर	जेसी-699320एम	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	रविन्द्र कुमार	जेसी-699321पी	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	जगवीर सिंह	जेसी-699322एक्स	01 मार्च 2016

नायब सूबेदार	कृष्ण कुमार	जेसी-699422एच	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	अभे सिंह	जेसी-699423एल	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	अनिल कुमार	जेसी-699424एन	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	राज कुमार	जेसी-699426वाई	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	सुभाष धंगर	जेसी-699427एफ	02 मार्च 2016!
(!सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	शिव शंकर सिंह	जेसी-699818एम	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	राम नरेश पटेल	जेसी-699819पी	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	महेन्द्र सिंह	जेसी-699820के	25 अप्रैल 2016!!
नायब सूबेदार	मोहम्मद रफी	जेसी-700040एन	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार	मनोज कुमार	जेसी-700005एल	01 अप्रैल 2016
(!!सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राजवीर सिंह	जेसी-700041डब्ल्यू	01 मई 2016
नायब सूबेदार	नन्दन सिंह	जेसी-699858एन	02 मई 2016!!!
नायब सूबेदार	हरी बहादुर	जेसी-699859डब्ल्यू	01 मई 2016
(!!!सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अजय कुमार पाण्डे	जेसी-699971एच	01 जून 2016
नायब सूबेदार	ओम प्रकाश जाट	जेसी-700006एन	10 जून 2016 /
नायब सूबेदार	देबब्रता वोस	जेसी-699860एल	01 अक्टूबर 2016 /
नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार दुबे	जेसी-699861एन	21 जून 2016 /
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार दत्ता	जेसी-699900एफ	28 जुलाई 2016 /
नायब सूबेदार	पिन्दु कुमार देव	जेसी-700007डब्ल्यू	20 जून 2016 /
नायब सूबेदार	सोमीसेट्टी नगेन्द्रन	जेसी-700137वाई	04 जून 2016 /
(/सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अर्जुन सिंह	जेसी-699972एल	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	राजवीर सिंह	जेसी-699973एन	28 जुलाई 2016 / /
नायब सूबेदार	चन्द्रवीर सिंह	जेसी-699974डब्ल्यू	01 जुलाई 2016

नायब सूबेदार	शियो प्रताप सिंह	जेसी-700008वाई	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	अलेक्जेंडर जॉन	जेसी-699975वाई	01 जुलाई 2016

नायब सूबेदार	सुधीर कुमार सिंह	जेसी-700208पी	01 जुलाई 2016
नायब सूबेदार	अनिल कुमार	जेसी-699976एफ	01 जुलाई 2016

(//सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	संजय कुमार सिंह	जेसी-700126एम	12 अगस्त 2016//
नायब सूबेदार	सुनील कुमार	जेसी-700009एफ	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	विजय कुमार नरसा पुरुषु	जेसी-699977के	18 अगस्त 2016//
नायब सूबेदार	गोपीनाथ बारिक	जेसी-699978एम	17 अगस्त 2016//
नायब सूबेदार	हीरा बल्लभ	जेसी-699979पी	20 अगस्त 2016//

(///सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	गजेन्द्र सिंह	जेसी-699980के	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	राजेन्द्र कुमार	जेसी-700074एफ	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार एस	जेसी-700075के	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	बीजू एस आर	जेसी-700077पी	06 अक्टूबर 2016+
नायब सूबेदार	हनुमान सिंह पनवर	जेसी-700150एच	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	बुद्धा राम चौधरी	जेसी-700078एक्स	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	सुदेश कुमार	जेसी-700079ए	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	दान सिंह	जेसी-700080पी	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	विरेंद्र सिंह	जेसी-700202एन	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	अनिल कुमार	जेसी-700082ए	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	ध्रुव कुमार सिंह	जेसी-700083एच	01 अक्टूबर 2016

(+सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	चन्दन सिंह	जेसी-700084एल	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	महेश चन्द्र शर्मा	जेसी-700085एन	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	एम नोगेन सिंघा	जेसी-700086डब्ल्यू	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	आर संजय	जेसी-700087वाई	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	कमलजीत सिंह	जेसी-700194वाई	25 नवम्बर 2016++

नायब सूबेदार	पुचा श्रीनिवासराव	जेसी-700088एफ	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	कालू प्रधान	जेसी-700089के	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	कामराजू कविती	जेसी-700090वाई	28 नवम्बर 2016++

(++सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	महेश सिंह	जेसी-700091एफ	01 दिसम्बर 2016
--------------	-----------	---------------	-----------------

नायब सूबेदार	प्रकाश सिंह देवपा	जेसी-700195एच	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार	अजय खेरवाल	जेसी-700092के	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार	एस विजय कुमार	जेसी-700093एम	05 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार	के नरसिम्हा रेड्डी	जेसी-700210एम	10 मार्च 2017+++
नायब सूबेदार	एम मलिकार्जन रेड्डी	जेसी-700094पी	07 दिसम्बर 2016+++
नायब सूबेदार	देसाई बालू गणपति	जेसी-700095एक्स	09 दिसम्बर 2016+++
नायब सूबेदार	रफीकुल आलम	जेसी-700277एल	03 जनवरी 2017+++
नायब सूबेदार	माईकल यागप्पन ए	जेसी-700096ए	05 दिसम्बर 2016+++
नायब सूबेदार	योगेश सिंह	जेसी-700097एच	08 दिसम्बर 2016+++
नायब सूबेदार	फिरोज खान पी पी	जेसी-700098एल	19 जनवरी 2017+++

(+++सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	बीजू गोपाल	जेसी-700099एन	01 जनवरी 2017
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र बहादुर सिंह	जेसी-700100एक्स	07 जनवरी 2017 ,
नायब सूबेदार	एस रामा कृष्णन	जेसी-700101ए	04 जनवरी 2017 ,

(, सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	गिरवर सिंह यादव	जेसी-700102एच	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	सरोज कुमार	जेसी-700103एल	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	छोटू राम पुनिया	जेसी-700104एन	07 फरवरी 2017 , ,
नायब सूबेदार	कमल देव कुशवाह	जेसी-700294एल	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	दिलीप कुमार कनवर	जेसी-700105 डब्ल्यू	09 फरवरी 2017 , ,

(, , सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	के एस हरी कुमार	जेसी-700196एल	27 जून 2017 , , ,
नायब सूबेदार	अखिलेश कुमार ठाकुर	जेसी-700493वाई	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	जाकिर हुसैन चावला	जेसी-700106वाई	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	भवानी सिंह	जेसी-700107एफ	03 मार्च 2017 , , ,
नायब सूबेदार	अमलेश कुमार	जेसी-700203 डब्ल्यू	04 मार्च 2017 , , ,
नायब सूबेदार	रामरूप सिंह	जेसी-700197एन	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	अरविन्द कुमार सिंह	जेसी-700198डब्ल्यू	02 मार्च 2017 , , ,
नायब सूबेदार	दरवान सिंह कोरन्गा	जेसी-700199वाई	05 मार्च 2017 , , ,
नायब सूबेदार	सत्य वीर	जेसी-700200एच	15 अप्रैल 2017 , , ,

(, , , सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार	राजेन्द्र सिंह बसेरा	जेसी-700201एल	05 अप्रैल 2017 रु
नायब सूबेदार	सत्य सागर चौहान	जेसी-700280एल	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	मोहन कुमार एस	जेसी-700275ए	05 अप्रैल 2017 रु

नायब सूबेदार	बालमीक प्रसाद	जेसी-700218वाई	06 अप्रैल 2017 रु
नायब सूबेदार	मनोज कुमार	जेसी-700219एफ	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	भगवन्त सिंह	जेसी-700220डब्ल्यू	03 अप्रैल 2017 रु
नायब सूबेदार	केदार सिंह	जेसी-700238एम	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	दीपेश खुलबे	जेसी-700239पी	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	रमेश चन्द्र जोशी	जेसी-700240के	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	रमेश सिंह	जेसी-700242पी	13 अप्रैल 2017 रु
(रु सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	भीम सिंह	जेसी-700243एक्स	29 मई 2017
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2017 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	गंगा सिंह	जेसी-700278एन	31 जुलाई 2017 रुरु
नायब सूबेदार	जितेन्द्र बहादुर सिंह यादव	जेसी-700244ए	24 जुलाई 2017 रुरु
नायब सूबेदार	दौजी दयाल शर्मा	जेसी-700245एच	04 जुलाई 2017 रुरु
नायब सूबेदार	थिरुपथी आर	जेसी-700308ए	10 जुलाई 2017 रुरु
(रुरु सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जायेगी।)			

नायब सूबेदार	बच्चू सिंह	जेसी-700246एल	01 अक्टूबर 2017
नायब सूबेदार	पटोली शिवपा जोत्यपा	जेसी-700276एच	01 अक्टूबर 2017
नायब सूबेदार	गोरे संजय बबन	जेसी-700248डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2017

स्थायी सूबेदार (रेडियोग्राफर)

पद	नाम	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
नायब सूबेदार	रवि ऐ	जेसी-697584पी	08 अगस्त 2015'
नायब सूबेदार	विनोद कुमार	जेसी-698060ए	17 सितम्बर 2015'
('सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अयप्पन टि एन	जेसी-698263के	01 अक्टूबर 2015
नायब सूबेदार	वरिन्दर सिंह	जेसी-698061एच	01 अक्टूबर 2015

नायब सूबेदार	शिरके दत्ताराम शान्ता राम	जेसी-697672एल	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	भंवर सिंह	जेसी-697673एन	01 नवम्बर 2015
नायब सूबेदार	संजय कुमार	जेसी-697915एल	07 दिसम्बर 2015''
('सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी।)			

नायब सूबेदार	अवधेश तिवारी	जेसी-697674डब्लू	18 दिसम्बर 2015'''
नायब सूबेदार	हरजीत पाल	जेसी-697675वाई	03 दिसम्बर 2015'''
नायब सूबेदार	लिंग राज बेहरा	जेसी-697712एफ	04 दिसम्बर 2015'''
नायब सूबेदार	राजेश टि आर	जेसी-697806वाई	04 दिसम्बर 2015'''
नायब सूबेदार	सुनील कुमार	जेसी-697713के	05 दिसम्बर 2015'''
नायब सूबेदार	अनिल कुमार कौण्डल	जेसी-698340एन	04 दिसम्बर 2015'''
('"'सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	धमेन्द्र कुमार	जेसी-698420एल	01 जनवरी 2016
नायब सूबेदार	राघवेन्द्र प्रसाद	जेसी-697714एम	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	तरिगोंडा कुलयप्पा	जेसी-697715पी	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	इला गोविन्दु	जेसी-697810एफ	01 फरवरी 2016
नायब सूबेदार	अनिल कुमार एस	जेसी-698264एम	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	अरविन्द कुमार	जेसी-697856के	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	इरप्पा मीशी	जेसी-697857एम	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार	वाकचुरै रावसाहेब हरि भाउ	जेसी-697868वाई	28 मार्च 2016''''
('"'सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मार्च 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सि प्रताप रेड्डी	जेसी-697858पी	11 अप्रैल 2016
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	खरका बहादुर थापा	जेसी-697864एच	01 मई 2016
नायब सूबेदार	संजय कुमार पान्डेय	जेसी-697859एक्स	19 मई 2016!
(!सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जायेगी।)			

नायब सूबेदार	अक्षय आनंद	जेसी-697882एल	20 जून 2016+
नायब सूबेदार	नजीर अहमद गनई	जेसी-698214एफ	08 जुलाई 2016+
नयब सूबेदार	प्रवीन कुमार टि जी	जेसी-697884डब्लू	11 जुलाई 2016+
(+सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)			

नायब सूबेदार	हीरा सिंह राणा	जेसी-697890के	19 अगस्त 2016++
नायब सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	जेसी-697921वाई	01 जुलाई 2016
(++सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	विनोद सि ऐ	जेसी-697922एफ	01 अगस्त 2016
नायब सूबेदार	अर्जुन बजन्तरी	जेसी-697965डब्ल्यू	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	ताराकेस्वरा राव जमि	जेसी-697966वाई	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	प्रदीप कर्माकर	जेसी-697967एफ	01 सितम्बर 2016
नायब सूबेदार	सहिदुर रह मान	जेसी-697968के	03 सितम्बर 2016+++
(+++सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	नेताई चक्रवर्ती	जेसी-697969एम	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	सुभाष चंद्र बोस एस	जेसी-698021एफ	01 अक्टूबर 2016
नायब सूबेदार	राज कुमार	जेसी-698266एक्स	01 नवम्बर 2016
नायब सूबेदार	प्रमोद एन ई	जेसी-698023एम	01 दिसम्बर 2016
नायब सूबेदार	नरेश कुमार यादव	जेसी-698389के	30 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	अनूप खरे	जेसी-698024पी	22 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	मनीश डिमरी	जेसी-698025एक्स	17 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	लक्ष्मी कांत पारिया	जेसी-698026ए	16 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	सुजीत कुमार सिंह	जेसी-698027एच	21 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	ईन्दल सिंह	जेसी-698341डब्ल्यू	15 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	अनिल कुमार यादव	जेसी-698055पी	15 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	सूरज सिंह	जेसी-698112एल	17 दिसम्बर 2016!!

नायब सूबेदार	रक्तिम फुकन	जेसी-698113एन	17 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	बलवंत सिंह यादव	जेसी-698179के	02 जनवरी 2017!!
नायब सूबेदार	सुरजीत भौमिक	जेसी-698774एन	16 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	मौ जोहीरुल आलम	जेसी-698308वाई	17 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	अजीत कुमार पी बी	जेसी-698146वाई	16 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	सन्दीप कुमार तिवारी	जेसी-698126एल	20 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	वाई रवीन्द्रनाथ रेड्डी	जेसी-698152एम	16 दिसम्बर 2016!!

नायब सूबेदार	शीतल प्रसाद मिश्रा	जेसी-698435एन	16 दिसम्बर 2016!!
नायब सूबेदार	प्रहलाद सिंह रावत	जेसी-698552वाई	02 जनवरी 2017!!
नायब सूबेदार	रामा कृष्णा नायक ऐ	जेसी-698814के	01 जनवरी 2017!!
(!!सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अशोक कुमार	जेसी-698426एम	01 जनवरी 2017
नायब सूबेदार	शिव सिंह	जेसी-698299एच	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	अजय कुमार	जेसी-698506के	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार राउत	जेसी-698553एफ	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	सुख जीत सिंह	जेसी-698507एम	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	करुण्य एस	जेसी-698535वाई	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	अशोक सन्तो पेठे	जेसी-698597वाई	14 फरवरी 2017 /
नायब सूबेदार	वीरेन्द्र सिंह	जेसी-699149वाई	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	पिन्टू कुमार पान्डेय	जेसी-699215डबलू	01 फरवरी 2017
नायब सूबेदार	बिपिन कुमार	जेसी-698911एफ	01 फरवरी 2017
(/ सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	अमित कुमार गुप्ता	जेसी-698977एक्स	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	धीरज सिंह	जेसी-698912के	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार	विकास कुमार	जेसी-698913एम	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार	जी रवि	जेसी-699058पी	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	रंजीत कुमार राय	जेसी-699059एक्स	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	प्रकाश चन्द सेन	जेसी-698914पी	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	बीपलब डे	जेसी-698978ए	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	सन्तु हाजरा	जेसी-698839डबलू	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार	अन्नादुराई पी	जेसी-699106के	25 अप्रैल 2017 / /
(/ / सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	विजय कुमार सिंह	जेसी-700938ए	02 मई 2017
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2017 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	सन्तोश कुमार सिंह	जेसी-698937डबलू	27 जून 2017
(सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जायेगी।)			
नायब सूबेदार	राजेश शाहा	जेसी-699153एफ	01 अगस्त 2017

स्थायी नायब सूबेदार (नर्सिंग सहायक)

पद	नाम	सेना संख्या	स्थिति	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
हवलदार	शंकर उपाध्याय	13984645एफ	अब	जेसी-702609एच	01 जुलाई 2017
(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी।)					
हवलदार	कमलेश कुमार सिंह	13986982पी	अब	जेसी-702499वाई	01 अप्रैल 2017
हवलदार	ग्रीश कुमार शर्मा	13987108एफ	अब	जेसी-702500एच	04 अप्रैल 2017!
हवलदार	मतबर सिंह	13987100पी	अब	जेसी-702501एल	05 मई 2017!
हवलदार	पाटिल जयन्त तुकाराम	13987282एन	अब	जेसी-702502एन	01 अप्रैल 2017
हवलदार	पाण्डे शिवदत्त विजय बहादुर	13987221डब्लू	अब	जेसी-702503डब्ल्यू	01 अप्रैल 2017
हवलदार	धर्मेन्द्र कुमार	13987121एल	अब	जेसी-702504वाई	01 अप्रैल 2017
हवलदार	रामानन्द यादव	13987120एच	अब	जेसी-702505एफ	01 अप्रैल 2017

हवलदार	ओम प्रकाश यादव	13987119एन	अब	जेसी-702506के	01 अप्रैल 2017
हवलदार	जपे सुनील जेनू	13987293ए	अब	जेसी-702507एम	19 अप्रैल 2017!
हवलदार	सुरजीत कुमार	13987241के	अब	जेसी-702523के	01 अप्रैल 2017
हवलदार	अनिल कुमार	13987265एन	अब	जेसी-702524एम	03 अप्रैल 2017!
(! नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी।)					
हवलदार	सौकत अली मोहम्मद	13987384के	अब	जेसी-702525पी	01 मई 2017
हवलदार	रामा मोहना राव सी एच	13987385एम	अब	जेसी-702526एक्स	01 मई 2017
हवलदार	एस के बायजीद सहीद बाबा	13987418एम	अब	जेसी-702527ए	01 मई 2017
हवलदार	शेख युसुफ	13987419पी	अब	जेसी-702528एच	04 जुलाई 2017!!
हवलदार	सुरा चन्द्र मोहन रेड्डी	13987420के	अब	जेसी-702529एल	01 जुलाई 2017
हवलदार	सिवा गंगा रेड्डी डिडला	13987424ए	अब	जेसी-702610एक्स	01 जुलाई 2017
(!! नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जायेगी।)					
हवलदार	संजीव कुमार दास	13987389एच	अब	जेसी-702655एक्स	01 अगस्त 2017
हवलदार	देवन्द्रन एस	13987453पी	अब	जेसी-702656ए	01 सितम्बर 2017
हवलदार	योगेन्द्र सिंह यादव	13987402एफ	अब	जेसी-702791एन	21 अक्टूबर 2017!!!
हवलदार	उज्जवल के आर घोष	13987401वाई	अब	जेसी-702792डब्ल्यू	11 नवम्बर 2017!!!
(!!! नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2017 से दी जायेगी।)					

स्थायी नायब सूबेदार (नर्सिंग तकनीशियन)

पद	नाम	सेना संख्या	स्थिति	सेना संख्या	प्रभाव डाले ज्येष्ठता
नायक	के बालामुरुगन	15414271एच	अब	जेसी-701032एफ	27 जुलाई 2015!
नायक	राम देव साद	15425450पी	अब	जेसी-701036एक्स	13 जुलाई 2015!
(! नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 30 जून 2015 से दी जायेगी।)					
नायक	सीता राम मीना	15411775एल	अब	जेसी-702710एच	25 अक्टूबर 2017!!

नायक	गोपाल सिंह	15414224एल	अब	जेसी-702711एल	07 अक्टूबर 2017!!
नायक	नरेन्द्र सिंह	15416671एन	अब	जेसी-702712एन	07 अक्टूबर 2017!!
नायक	निथिन के आर	15418319एच	अब	जेसी-702713डब्ल्यू	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	कोण्डप्पा सतीश कुमार	15418798पी	अब	जेसी-702714वाई	08 अक्टूबर 2017!!
नायक	बोदुलुरी देवेन्द्रा कुमार	15420541एच	अब	जेसी-702715एफ	05 अक्टूबर 2017!!

नायक	मृत्युञ्जय दास	15421716एम	अब	जेसी-702716के	22 अक्टूबर 2017!!
नायक	विनोद बाबु ए	15421765पी	अब	जेसी-702717एम	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	मतला मल्लिकाअर्जुन	15421884एल	अब	जेसी-702718पी	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	गिथीश कुमार के एम	15422523वाई	अब	जेसी-702719एक्स	12 अक्टूबर 2017!!
नायक	प्रवीण सी कदम	15422544पी	अब	जेसी-702720एम	06 अक्टूबर 2017!!
नायक	मिन्दु राम	15423788पी	अब	जेसी-702721पी	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	बिबिन सेबेस्टीयन	15424108डब्ल्यू	अब	जेसी-702722एक्स	20 अक्टूबर 2017!!
नायक	विजया भास्करा रेड्डी बी	15424198एच	अब	जेसी-700723ए	14 अक्टूबर 2017!!
नायक	सन्नी वर्मा	15424245पी	अब	जेसी-702724एच	10 अक्टूबर 2017!!
नायक	पी वेंकटा श्रीनीवासुलु	15424286वाई	अब	जेसी-702725एल	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	राजा बाबु एम	15424411एक्स	अब	जेसी-702726एन	06 अक्टूबर 2017!!
नायक	शंकर लाल	15424432एन	अब	जेसी-702727डब्ल्यू	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	संतोष जराली	15424566एम	अब	जेसी-702728वाई	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	नरेन्द्र	15424591एल	अब	जेसी-702729एफ	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	मंजुनाथ	15424607एल	अब	जेसी-702730डब्ल्यू	06 अक्टूबर 2017!!
नायक	सच्चीदानन्द गोविंदप्पा अवराधी	15424641एल	अब	जेसी-702731वाई	25 अक्टूबर 2017!!
नायक	अर्न्तजयामी नायक	15424838एफ	अब	जेसी-702732एफ	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	सिरसत योगेश्वर रामनाथ	15422396पी	अब	जेसी-702733के	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	शेर सिंह	15425269एल	अब	जेसी-702734एम	04 अक्टूबर 2017!!
नायक	संजय कुमार	15425310डब्ल्यू	अब	जेसी-702735पी	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	बी गंगाराम	15425463ए	अब	जेसी-702736एक्स	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	अपोरेश घोष	15425480ए	अब	जेसी-702737ए	06 अक्टूबर 2017!!
नायक	नदफ अजरुद्दीन अख्तर	15425511पी	अब	जेसी-702738एच	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	सुंदर पाल	15425656एन	अब	जेसी-702739एल	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	भारत सिंह खड्डा	15425668पी	अब	जेसी-702740ए	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	हर्ष वर्धन सिंह	15425820एक्स	अब	जेसी-702741एच	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	बिनय कुमार	15426113ए	अब	जेसी-702742एल	05 अक्टूबर 2017!!

नायक	बिकास कर	15426142पी	अब	जेसी-702743एन	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	ललित मोहन सुतेरी	15426206पी	अब	जेसी-702744डब्लू	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	जीथील एम	15426403एक्स	अब	जेसी-702745वाई	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	शिंदे रतनाकर आनंद राव	15426760ए	अब	जेसी-702746एफ	06 अक्टूबर 2017!!
नायक	विक्रम कुमार	15427004ए	अब	जेसी-702747के	16 अक्टूबर 2017!!
नायक	अरधी सुनील कुमार	15425973एफ	अब	जेसी-702748एम	04 अक्टूबर 2017!!
नायक	हरेन्द्र नाथ शुक्ला	15427202एल	अब	जेसी-702749पी	05 अक्टूबर 2017!!
नायक	विनोथ कुमार ए	15427858ए	अब	जेसी-702750के	11 अक्टूबर 2017!!
नायक	धीरज कुमार	15427952के	अब	जेसी-702751एम	05 अक्टूबर 2017!!
(!! नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2017 से दी जायेगी।)					

ए. के. तिवारी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th March, 2018

ARMY BRANCH

No. 63 dated 26.03.2018. The President is pleased to make the following promotions :

TERRITORIAL ARMYTERRITORIAL COMMISSIONTO BE LT COL

Maj Sidharth Sharma	TA-42534	(Infantry)	29 Oct 2017
Maj Chubaonen LongKumer	TA-42545	(Infantry)	25 Nov 2017

TO BE MAJ

Capt Sanjay Prabhakar Raole	TA-42649	(Infantry)	05 Jun 2017
Capt Khawar Khan Afridi	TA-42697	(Infantry)	05 Jun 2017
Capt Rouble Dilpreet Singh	TA-42743	(Infantry)	04 Sep 2017

SUDERSHAN KUMAR

Under Secy.

No. 64 dated 27.03.2018 The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMYSHORT SERVICE COMMISSION (MEN)LT TO CAPT

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
47829	UMAR KAMAAL	AVN	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47830	VIKAS YADAV	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47831	VIKASH THAKAN	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47832	PRAKASH SINGH	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47833	ASHOK KUMAR SHUKLA	MECH	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47834	AJAY SINGH SAMANT	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47835	BIRINDER SINGH	JAG	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47837	GANESH KUMAR HANS	ASC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47838	ARUN	AAD	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47839	NIKHIL KUMAR	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47840	DEEPAK PUNIA	AVN	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47841	SAHIL AHUJA	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17

47843	LALIT KUMAR DOGRA	ENGRS	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47844	PUNIT KUMAR	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47845	GOPAL SINGH	ENGRS	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47846	RITESH KUMAR	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47847	PRASHANT SAXENA	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47848	MANDANNA M R	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47849	KULDEEP	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47850	GURNOOR SINGH BHANGU	ASC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47851	YOGESHWAR SINGH JAMWAL	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47852	GURTAJ SINGH	AC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47853	PAWAR SANKET APPASAHEB	AVN	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47854	ANKUSH SHARMA	SIGS	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47855	VISHWAJEET SINGH SOLANKI	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47857	TRISHAM SAIKIA	MECH	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47858	PRATEEK THAKUR	EME	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47859	SATYENDRA SINGH RATHORE	AC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47860	LAISHRAM JAMESON SINGH	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47861	ANIRUDDHA SUBBA	ENGRS	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47862	UTTAMKUMAR B JADHAV	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47863	NITIN KUMAR YADAV	AAD	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47864	AJEET SINGH	AOC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47865	MOHD SHOEB MOHD SHABBIR	AAD	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47866	ANKIT SINGH	SIGS	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47867	VIKAS SINGH GUSAIN	ENGRS	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47868	JONAH HALAM	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47869	SIDDHANT SHARMA	MECH	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47870	AKHIL THAKUR	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47871	ADITYA PRATAP SINGH BAGHEL	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47872	VIPUL KUMAR SINGH	MECH	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47873	BAGUL SANDIP GULABRAO	ASC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47874	S KIRTHIVERMAN	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47875	SHUBHAM PANDEY	INT	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47876	HARSHVEER SINGH	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47877	ASHISH GEDION PAUDEL	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47878	VIKASH RAI	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47879	KULKARNI ROHIT ARUN	EME	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47880	TUSHAR JAKHER	AC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47881	PANKAJ SINGH	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47884	ADITYA VAIBHAV ASTHANA	AVN	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47885	MUKESH KUMAR	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47887	PARTHO KATYAYAN	JAG	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47888	VIPLAV CHOUHAN	AOC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47890	CAETANO JONAH MICHAEL	JAG	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47893	ARMAANDEEP SINGH WAHAD	AC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47894	RAJ HANS	ENGRS	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17

47895	NITIN KUMAR	AVN	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47897	ABHISHEK DUBEY	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47898	AKASH VASHISHTA	JAG	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47899	SHANKAR D ANBU	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47900	HANISH KATHURIA	ASC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47902	YOGESH LAMBA	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47903	PRADEEP KUMAR C S	EME	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47904	RISHABH PANDEY	AC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47906	SHIVRAJ SINGH RATHORE	AC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47907	PRANEET KUMAR	AVN	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47909	V V VAISHAKH	AAD	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47910	ANUJ GADRE	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47912	RAMSAGAR PANDAY	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47913	PRASHANT AGNIHOTRI	ENGRS	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47914	DIWAKAR SHARMA	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47915	AMANDEEP JAKHAR	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47916	PRADEEP SHARMA	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47917	PRANSHU MAURYA	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47918	RAVI PRATAP	MECH	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47919	TANVEER SINGH MANN	AC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47921	SIMRANJEET SINGH WALIA	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47922	J AJANDAR	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47923	KRISHNAMOORTHY K	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47924	MOHAMMAD ZEESHAN ALI	AOC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47926	RAJAT SINGH	MECH	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47929	TANUSH SANGWAN	ASC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47930	SANDEEP SINGH	INF	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47931	SANDEEP SINGH	JAG	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47932	AMIT KUMAR DAHIYA	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47933	ACHINT SINGH CHAWLA	AOC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47934	VISHAV NATH PRATAP SINGH PATEL	AOC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47935	AMIT SHARMA	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47937	DEEPAK SAROHA	SIGS	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47939	PRATIKSHIT RAAJ TEWARI	AAD	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47940	ARJUN SINGH CHAUHAN	JAG	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47941	RAVINDRA SINGH	ASC	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17
47942	BHANU PRATAP SINGH	ARTY	14 Mar 15	SSC-99 (NT)	14 Oct 15	14 Oct 17

SS No	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Capt
48971	SHITHIJ SEKAR	INF	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
48973	RAHUL BISWAS	ASC	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
48974	ARUN A	SIGS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
48979	SYED ASHAD AHMED	ENGRS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
48989	ADITYA SHARMA	ENGRS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
48992	AJAY KUMAR CHAND	ENGRS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
48994	AVTAR SINGH	INF	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
48998	SHAIK AZAD HUSSAIN	ARTY	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
48999	ABHISHEK MAHAJAN	ARTY	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49000	KANNAN S	AVN	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49001	AASHIM	AVN	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49003	AMIT SINGH	EME	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49004	NAVNEET SINGH	ENGRS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49005	AKASH BHATLI	INF	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49012	VANSHAY KAPOOR	MECH	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49013	SREEKANTH SANTHOSH	ENGRS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49015	HARMANJEET SINGH	INF	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49016	JITHIN K AJITH	SIGS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49017	KUSHAGRA OBEROI	ARTY	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49023	ANTERPREET SINGH	INF	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49024	PARAS SHARMA	ENGRS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49028	HEMANT SHARMA	EME	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49029	GAURAV TIWARI	ARTY	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49030	KARAIGANDAEASWARAN B	ARTY	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49033	AKSHAY RASTOGI	MECH	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49036	HARENDRA SINGH	EME	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49037	A K S KOGUL	ARTY	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49040	SHAHEBAZ TABUL NAIK	AC	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49043	RAVI KUMAR SINGH JADON	AOC	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49047	SHUBHAM JAISWAL	ENGRS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49050	DEVESH SINGH KATIYAR	AVN	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49051	ANKIT AHUJA	AVN	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49053	KARTHIKEYAN V	EME	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49056	DESHMUKH AJINKYA VIJAY	ENGRS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49062	DEEPAK AHLAWAT	INF	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49063	ANMOL SHARMA	INF	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49065	SAKTHIVEL V	AVN	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49067	AMAN ARORA	ENGRS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49068	MADISETTY PRUDVI KRISHNA	EME	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49069	DANISH SODHI	EME	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49075	ROHEN	SIGS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17

49077	VISHNU K	SIGS	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17
49079	GURTEJ SINGH	EME	13 Sep 15	SSC-45 (T)	13 Oct 2015	13 Oct 17

MP SHARMA
Dy Dir
MS-8C

(ARMY BRANCH)

No. 65. dated 28.03.2018 The President is pleased to make the following promotions.

(REGULAR ARMY)

(ARMY MEDICAL CORPS)

<u>TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (PHARM)</u>			
NAIB SUBEDAR	A GNANA SINGH	JC698888Y	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR SHARMA	JC698889F	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	MURUGAN KK	JC698890W	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	MAHENDRAN P	JC698891Y	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	KAUSHLESH KUMAR SHUKLA	JC698892F	03 Nov 2015*
NAIB SUBEDAR	RK MAGESH	JC698929X	01 Nov 2015
*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	PURAN SINGH BISHT	JC698893K	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	T SELVAM	JC699076X	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	SATHISH KUMAR S	JC699223P	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	BIRENDRA KUMAR SINGH	JC698894M	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	DHARAM SINGH	JC699096L	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	SANKHDHAR DWIVEDI	JC699097N	01 Dec 2015
NAIB SUBEDAR	RAM PAL SINGH	JC699132L	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	SENTHIL NATHAN D	JC699112X	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	VIBHUTE SANDIP MAHADEO	JC698895P	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	RAMESH KUMAR AGNIHOTRI	JC699133N	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	JAGDISH SINGH BAJETHA	JC698896X	01 Mar 2016

NAIB SUBEDAR	KRISHNA MURARI SHARMA	JC699052N	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	KOTHARE SUBASH TATYA RAM	JC698897A	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	JADHAV BHASKAR MAHADU	JC698982H	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	KHAJAN SINGH	JC698898H	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	SHASHI PRAKASH SHARMA	JC698899L	20 May 2016**
NAIB SUBEDAR	BAL KISHOR RAJPUT	JC698900P	24 May 2016**
NAIB SUBEDAR	MORE GAJANAN SURYABHAN	JC698930M	16 Jun 2016**
**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	HADIYAL HARESH SAVJI	JC699099Y	21 Jun 2016***
NAIB SUBEDAR	NARASIMHA RAO NADIMINTI	JC698901X	27 Aug 2016***
NAIB SUBEDAR	R JAYARAMAN	JC699077A	28 Jul 2016***
NAIB SUBEDAR	GANAR NITIN SHESH RAO	JC698902A	15 Jul 2016***
NAIB SUBEDAR	TRILOK SINGH	JC699113A	16 Jun 2016***
***Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SAHAB SINGH	JC699098W	06 Sep 2016
Granted seniority in the rank of Subedar wef 11 Jun 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	RAJ KISHOR PRASAD	JC698903H	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR CHOUDHARY	JC699114H	18 Jul 2016@
@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SUBHASH CHANDRA	JC699155M	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	IMNAWATI PONGENER	JC698904L	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	TIATEMSU LONGKUMER	JC699078H	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	REYAZ AHMAD BABA	JC699280W	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	RATHNAPPA R	JC699281Y	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	A DHANANCHEYAN	JC699282F	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	MURUGESAN G	JC699283K	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	JAYARAJ R	JC699284M	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	KRISHNA KUMAR VS	JC699416P	21 Sep 2016@@

@ @Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	A RAMA REDDY	JC699417X	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	SURENDER KUMAR BARALA	JC699418A	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	GHORPADE NITEEN BHAGWAN	JC699419H	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	SURENDRA PRASAD	JC699524Y	13 Oct 2016@ @
@ @ @Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	KADLAGE TUKARAM MAHADEV	JC699525F	04 Nov 2016#
NAIB SUBEDAR	SRIDHARAN S	JC699526K	01 Nov 2016
NAIB SUBEDAR	ARIHARA BARATHI PG	JC700003A	01 Nov 2016
#Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 16 without effect on pay & allces			

NAIB SUBEDAR	M THANGAM	JC699752F	01 Dec 2016
NAIB SUBEDAR	SURESH SINGH PAYAL	JC699664L	14 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	DEEPAK ADHIKARI	JC699751Y	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	NARENDRA KUMAR RAWAT	JC699816F	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	SHEKH AJIS SHEKH MAHMAD	JC699916M	11 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	SARVENDRA SINGH	JC699917P	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	RAM CHANDRA YADAV	JC699918X	13 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	KANHI RAM	JC699919A	13 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	ATUL TIWARI	JC699920P	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	DHEERENDRA KUMAR SINGH	JC699921X	09 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	POONSOLAI S	JC699969L	09 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	D VENKATESAN	JC699922A	14 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	G SANKAR GANESH	JC699923H	28 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	PRASAD R	JC699924L	26 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	CHELLAPANDI N	JC699925N	14 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	MANOJ R	JC700156K	11 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	RAMESH CHANDRA GARKOTI	JC700170W	11 Dec 2016##

NAIB SUBEDAR	V MUNIYANDI	JC700114X	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	KUMAR M	JC700115A	21 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	GRISH NARAYAN TIWARI	JC700116H	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	M MURALIDHARAN	JC700117L	15 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	CHANDRA SEKARAN T	JC700118N	11 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	S SRINIVASAN	JC700119W	11 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	SHANMUGAM J	JC700120L	10 Dec 2016##

NAIB SUBEDAR	C RAJA SEKARAN	JC700121N	14 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	M ASOKAN	JC700211P	13 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	YOGENDER SINGH	JC701820L	10 Jun 2017##
NAIB SUBEDAR	CH LAXMI NARAYANA REDDY	JC700354P	14 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	NIRAMAL KUMAR SIDHANTA	JC700355X	13 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	NATARAJAN P	JC701821N	05 Jul 2017##
NAIB SUBEDAR	V GOVINDAN	JC700436X	12 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	MANORANJAN KUMAR	JC700465M	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	ADWAITYA PRASAD PRADHAN	JC700523L	06 Jan 2017##
NAIB SUBEDAR	K S UMAMAHESWARAN	JC700524N	17 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	OM PRAKASH SINGH	JC701009N	12 May 2017##
NAIB SUBEDAR	SHYAMAL KUMAR MANDAL	JC700526Y	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	JOYDEV BERA	JC701214P	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	JADHAV HANMANT SUBRAO	JC701010H	15 Apr 2017##
NAIB SUBEDAR	BRIJ MOHAN SHARMA	JC700713X	11 Jan 2017##
NAIB SUBEDAR	PANKAJ SALARIA	JC701426A	21 Jun 2017##
NAIB SUBEDAR	MURALIDHARAN N	JC700766W	15 Mar 2017##
NAIB SUBEDAR	HARI SHANKAR BHATT	JC700790M	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR JOSHI	JC701427H	16 Dec 2016##

NAIB SUBEDAR	LAXMAN BEHERA	JC700860A	10 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	PAN SINGH	JC700861H	19 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	RAJESH RM	JC700862L	09 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	JITENDRA KUMAR TRIPATHI	JC700890X	07 Jan 2017##
NAIB SUBEDAR	GURMEET SINGH	JC701565K	16 Jun 2017##
NAIB SUBEDAR	SURAJ KARMAKAR	JC701522P	25 Sep 2017##

NAIB SUBEDAR	RAJANI KANTA PRADHAN	JC700941A	09 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	SHIV KUMAR	JC700942H	20 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	ASHOK KUMAR	JC700943L	17 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	DILIP KUMAR PANDEY	JC701282H	02 Feb 2017##
NAIB SUBEDAR	RAMAR K	JC701566M	11 Aug 2017##
NAIB SUBEDAR	SUBHASH CHAND	JC700944N	13 Dec 2016##
NAIB SUBEDAR	S RAMADHAS	JC700953P	13 Dec 2016##

##Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 16 without effect on pay & allces

NAIB SUBEDAR	S SOOSAI MANICKAM	JC700954X	28 Jan 2017###
NAIB SUBEDAR	MADAN MOHAN MAHAPATRA	JC700955A	30 Jan 2017###

###Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 17 without effect on pay & allces

NAIB SUBEDAR	ANIL DALAKOTI	JC700956H	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	PATIL RAJENDRA SHIVAJI	JC701165X	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	HARI MOHAN	JC701166A	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	TEK CHANDRA TYAGI	JC701298N	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR UPADHYAY	JC701283L	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	AMITABH SINGH	JC701224Y	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	DUBE LAL SAHU	JC701225F	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	BHASKAR DAS	JC701253N	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	ROHIT KUMAR SAHU	JC701254W	01 Mar 2017

NAIB SUBEDAR	RAJAN SINGH	JC701226K	16 Sep 2017\$
NAIB SUBEDAR	NARENDRA SINGH	JC701227M	19 Apr 2017\$
\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 17 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SATENDRA SINGH ASWAL	JC701310K	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	PAWAR SURESH TULASHIDAS	JC701355K	25 Sep 2017\$\$
NAIB SUBEDAR	ROHITASAV KUMAR LIGREE	JC701311M	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	NARENDRA KUMAR TYAGI	JC701428L	01 Apr 2017
\$\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 17 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	DHUNKAL RAM	JC701523X	25 Sep 2017
Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 17 without effect on pay & allces			

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (STA)

NAIB SUBEDAR	NIRMAL SILVERA S	JC699529X	01 Jan 2015
NAIB SUBEDAR	RAM KISHAN	JC699904X	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	GANESH SINGH GOBARI	JC699905A	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	SHREE RAMESH KUMAR P	JC700068N	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	PRIYA KUMAR D	JC700069W	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	ASHOK KUMAR	JC700169F	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	MUKESH CHAND GAIROLA	JC700130P	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	MOHD AZAM	JC700132A	25 Jul 2016*
*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	RANJAN KUMAR SINGH	JC700434M	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	LAKHWINDER SINGH	JC700735W	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	THI THAMIZHARASU	JC700773M	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	ABDUL RASHEED K C	JC701012N	02 Jan 2017**
**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 17 without effect on pay & allces			

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (N ASST)

NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR THAPA	JC699262N	03 Aug 2017
(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2015 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SURENDRA KUAR	JC699320M	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	RAVINDRA KUMAR	JC699321P	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	JAGVIR SINGH	JC699322X	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	KRISHAN KUMAR	JC699422H	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	ABHE SINGH	JC699423L	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR	JC699424N	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	RAJ KUMAR	JC699426Y	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	SUBHASH DHANGAR	JC699427F	02 Mar 2016*
(*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SHIV SHANKAR SINGH	JC699818M	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	RAM NARESH PATEL	JC699819P	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	MAHENDRA SINGH	JC699820K	25 Apr 2016**
NAIB SUBEDAR	MOHAMMAD RAFFI	JC700040N	01 Apr 2016
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR	JC700005L	01 Apr 2016
(**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	RAJVIR SINGH	JC700041W	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	NANDAN SINGH	JC699858N	02 May 2016***
NAIB SUBEDAR	HARI BAHADUR	JC699859W	01 May 2016
(***)Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	AJOY KUMAR PANDEY	JC699971H	01 Jun 2016
NAIB SUBEDAR	OM PRAKASH JAT	JC700006N	10 Jun 2016@
NAIB SUBEDAR	DEBABRATA BOSE	JC699860L	01 Oct 2016@
NAIB SUBEDAR	PRAMOD KUMAR DUBEY	JC699861N	21 Jun 2016@
NAIB SUBEDAR	PRADIP KUMAR DUTTA	JC699900F	28 Jul 2016@
NAIB SUBEDAR	PINTU KUMAR DEY	JC700007W	20 Jun 2016@
NAIB SUBEDAR	SOMISETTY NAGENDRAN	JC700137Y	04 Jun 2016@

(@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	ARJUN SINGH	JC699972L	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	RAJBIR SINGH	JC699973N	28 Jul 2016@@
NAIB SUBEDAR	CHANDRVIR SINGH	JC699974W	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	SHIO PRATAP SINGH	JC700008Y	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	ALEXANDER JOHN	JC699975Y	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	SUDHIR KUMAR SINGH	JC700208P	01 Jul 2016
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR	JC699976F	01 Jul 2016
(@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR SINGH	JC700126M	12 Aug 2016@@@
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR	JC700009F	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	VIJAYA KUMAR NARSA PURUPU	JC699977K	18 Aug 2016@@@
NAIB SUBEDAR	GOPINATH BARIK	JC699978M	17 Aug 2016@@@
NAIB SUBEDAR	HIRA BALLABH	JC699979P	20 Aug 2016@@@
(@@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	GAJENDRA SINGH	JC699980K	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA KUMAR	JC700074F	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	SURESH KUMAR S	JC700075K	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	BIJU SR	JC700077P	06 Oct 2016#
NAIB SUBEDAR	HANUMAN SINGH PANWAR	JC700150H	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	BUDHA RAM CHOUDHARY	JC700078X	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	SUDESH KUMAR	JC700079A	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	DAN SINGH	JC700080P	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	VIRENDRA SINGH	JC700202N	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR	JC700082A	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	DHRUV KUMAR SINGH	JC700083H	01 Oct 2016
(#Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	CHANDAN SINGH	JC700084L	01 Nov 2016
NAIB SUBEDAR	MAHESH CHANDRA SHARMA	JC700085N	01 Nov 2016
NAIB SUBEDAR	M NOGEN SINGHA	JC700086W	01 Nov 2016
NAIB SUBEDAR	R SANJAY	JC700087Y	01 Nov 2016

NAIB SUBEDAR	KAMALJIT SINGH	JC700194A	25 Nov 2016##
NAIB SUBEDAR	PUCHA SRINIVASARAO	JC700088F	01 Nov 2016
NAIB SUBEDAR	KALU PRADHAN	JC700089K	01 Nov 2016
NAIB SUBEDAR	KAMARAJU KAVITI	JC700090Y	28 Nov 2016##
(##Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	MAHESH SINGH	JC700091F	01 Dec 2016
NAIB SUBEDAR	PRAKASH SINGH DEOPA	JC700195H	01 Dec 2016
NAIB SUBEDAR	AJAI KHERWAL	JC700092K	01 Dec 2016
NAIB SUBEDAR	S VIJAYA KUMAR	JC700093M	05 Dec 2016###
NAIB SUBEDAR	K NARSIMHA REDDY	JC700210M	10 Mar 2017###
NAIB SUBEDAR	M MALLIKHARJUNA REDDY	JC700094P	07 Dec 2016###
NAIB SUBEDAR	DESAI BALU GANAPATI	JC700095X	09 Dec 2016###
NAIB SUBEDAR	RAFIKUL ALAM	JC700277L	03 Jan 2017###
NAIB SUBEDAR	MICHAEL YAGAPPAN A	JC700096A	05 Dec 2016###
NAIB SUBEDAR	YOGESH SINGH	JC700097H	08 Dec 2016###
NAIB SUBEDAR	FIROZ KHAN PP	JC700098L	19 Jan 2017###
(###Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2016 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	BIJU GOPAL	JC700099N	01 Jan 2017
NAIB SUBEDAR	SURENDRA BAHADUR SINGH	JC700100X	07 Jan 2017\$
NAIB SUBEDAR	S RAMA KRISHNAN	JC700101A	04 Jan 2017\$
(\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2017 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	GIRVER SINGH YADAV	JC700102H	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	SAROJ KUMAR	JC700103L	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	CHHOTU RAM PUNIYA	JC700104N	07 Feb 2017\$\$
NAIB SUBEDAR	KAMAL DEO KUSHAWAHA	JC700294L	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	DILIP KUMAR KUNWAR	JC700105W	09 Feb 2017\$
(\$\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2017 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	KS HARI KUMAR	JC700196L	27 Jun 2017\$\$\$
NAIB SUBEDAR	AKHILESHWAR KUMAR THAKUR	JC700493Y	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	JAKIR HUSAIN CHAWLA	JC700106Y	01 Mar 2017

NAIB SUBEDAR	BHAWANI SINGH	JC700107F	03 Mar 2017\$\$\$
NAIB SUBEDAR	AMLESH KUMAR	JC700203W	04 Mar 2017\$\$\$
NAIB SUBEDAR	RAMROOP SINGH	JC700197N	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	ARVIND KUMAR SINGH	JC700198W	02 Mar 2017\$\$\$
NAIB SUBEDAR	DARWAN SINGH KORANGA	JC700199Y	05 Mar 2017\$\$\$
NAIB SUBEDAR	SATYA VEER	JC700200H	15 Apr 2017\$\$\$
(\$\$\$Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2017 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA SINGH BASERA	JC700201L	05 Apr 2017%
NAIB SUBEDAR	SATYA SAGAR CHAUHAN	JC700280L	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	MOHAN KUMAR S	JC700275A	05 Apr 2017%
NAIB SUBEDAR	BALMIK PRASAD	JC700218Y	06 Apr 2017%
NAIB SUBEDAR	MANOJ KUMAR	JC700219F	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	BHAGWANT SINGH	JC700220W	03 Apr 2017%
NAIB SUBEDAR	KEDAR SINGH	JC700238M	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	DEEPESH KHULBE	JC700239P	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	RAMESH CHANDRA JOSHI	JC700240K	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	RAMESH SINGH	JC700242P	13 Apr 2017%
(%Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2017 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	BHEEM SINGH	JC700243X	29 May 2017
(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2017 without effect on pay and allces)			
NAIB SUBEDAR	GANGA SINGH	JC700278N	31 Jul 2017%%
NAIB SUBEDAR	JITENDRA BAHADUR SINGH YADAVA	JC700244A	24 Jul 2017%%
NAIB SUBEDAR	DAUJI DAYAL SHARMA	JC700245H	04 Jul 2017%%
NAIB SUBEDAR	THIRUPATHI R	JC700308A	10 Jul 2017%%
(%%Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2017 without effect on pay and allces)			
B SUBEDAR	BACHHU SINGH	JC700246L	01 Oct 2017
NAIB SUBEDAR	PATOLI SHIVAPA JOTYAPA	JC700276H	01 Oct 2017
NAIB SUBEDAR	GORE SANJAY BABAN	JC700248W	01 Oct 2017

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (RGR)

NAIB SUBEDAR	RAVI A	JC697584P	08 Aug 2015*
NAIB SUBEDAR	VINOD KUMAR	JC698060A	17 Sep 2015*
*Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	AIYAPPAN TN	JC698263K	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	VARINDER SINGH	JC698061H	01 Oct 2015
NAIB SUBEDAR	SHIRKE DATTARAM SHANTA RAM	JC697672L	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	BHANWAR SINGH	JC697673N	01 Nov 2015
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR	JC697915L	07 Dec 2015**
**Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	AWADHESH TIWARI	JC697674W	18 Dec 2015***
NAIB SUBEDAR	HARJIT PAUL	JC697675Y	03 Dec 2015***
NAIB SUBEDAR	LING RAJ BEHERA	JC697712F	04 Dec 2015***
NAIB SUBEDAR	RAJESH TR	JC697806Y	04 Dec 2015***
NAIB SUBEDAR	SUNIL KUMAR	JC697713K	05 Dec 2015***
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR KAUNDAL	JC698340N	04 Dec 2015***
***Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 15 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	DHARMENDRA KUMAR	JC698420L	01 Jan 2016
NAIB SUBEDAR	RAGHVENDRA PRASAD	JC697714M	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	TARIGONDA KULLAYAPPA	JC697715P	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	ELLA GOVINDU	JC697810F	01 Feb 2016
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR S	JC698264M	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	ARVIND KUMAR	JC697856K	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	IRAPPA MEESHI	JC697857M	01 Mar 2016
NAIB SUBEDAR	WAKCHAURE RAVASAHEB HARI BHAU	JC697868Y	28 Mar 2016****
****Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	C PRATAPA REDDY	JC697858P	11 Apr 2016
Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 16 without effect on pay & allces			

NAIB SUBEDAR	KHARKA BAHADUR THAPA	JC697864H	01 May 2016
NAIB SUBEDAR	SANJAY KUMAR PANDAY	JC697859X	19 May 2016@
@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	AKSHYA ANAND	JC697882L	20 Jun 2016@@
NAIB SUBEDAR	NAZIR AHMAD GANAI	JC698214F	08 Jul 2016@@
NAIB SUBEDAR	PRAVEEN KUMAR TG	JC697884W	11 Jul 2016@@
@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	HIRA SINGH RANA	JC697890K	19 Aug 2016@@@
NAIB SUBEDAR	RAJENDRA SINGH	JC697921Y	01 Jul 2016
@@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	VINOD CA	JC697922F	01 Aug 2016
NAIB SUBEDAR	ARJUN BAJANTRI	JC697965W	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	TARAKESWARA RAO JAMI	JC697966Y	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	PRADIP KARMAKAR	JC697967F	01 Sep 2016
NAIB SUBEDAR	SAHIDUR RAHA MAN	JC697968K	03 Sep 2016@@@@
@@@@Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	NETAI CHAKRABORTY	JC697969M	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	SUBASH CHANDRA BOSE S	JC698021F	01 Oct 2016
NAIB SUBEDAR	RAJ KUMAR	JC698266X	01 Nov 2016
NAIB SUBEDAR	PRAMOD NE	JC698023M	01 Dec 2016
NAIB SUBEDAR	NARESH KUMAR YADAV	JC698389K	30 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	ANOOP KHARE	JC698024P	22 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	MANISH DIMRI	JC698025X	17 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	LAKSHMI KANTA PARIA	JC698026A	16 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	SUJEET KUMAR SINGH	JC698027H	21 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	INDAL SINGH	JC698341W	15 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	ANIL KUMAR YADAV	JC698055P	15 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	SURAJ SINGH	JC698112L	17 Dec 2016#

NAIB SUBEDAR	RAKTIM PHUKAN	JC698113N	17 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	BALWANT SINGH YADAV	JC698179K	02 Jan 2017#
NAIB SUBEDAR	SURAJIT BHOWMIK	JC698774N	16 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	MD JOHIRUL ALAM	JC698308Y	17 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	AJITH KUMAR PB	JC698146Y	16 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	SANDEEP KUMAR TIWARI	JC698126L	20 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	Y RAVINDRANATHA REDDY	JC698152M	16 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	SHEETALA PRASAD MISHRA	JC698435N	16 Dec 2016#
NAIB SUBEDAR	PRALAD SINGH RAWAT	JC698552Y	02 Jan 2017#
NAIB SUBEDAR	RAMA KRISHNA NAYAK A	JC698814K	01 Jan 2017#
#Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 16 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	ASHOK KUMAR	JC698426M	01 Jan 2017
NAIB SUBEDAR	SHIV SINGH	JC698299H	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	AJAY KUMAR	JC698506K	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	PRADEEP KUMAR ROUT	JC698553F	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	SUKH JIT SINGH	JC698507M	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	KARUPPAIAH S	JC698535Y	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	ASHOK SANTO PETHE	JC698597Y	14 Feb 2017##
NAIB SUBEDAR	VIRDENDER SINGH	JC699149Y	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	PINTU KUMAR PANDEY	JC699215W	01 Feb 2017
NAIB SUBEDAR	BIPIN KUMAR	JC698911F	01 Feb 2017
##Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 17 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	AMIT KUMAR GUPTA	JC698977X	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	DHIRAJ SINGH	JC698912K	01 Mar 2017
NAIB SUBEDAR	VIKASH KUMAR	JC698913M	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	G RAVI	JC699058P	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	RANJIT KUMAR RAI	JC699059X	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	PRAKASH CHAND SEN	JC698914P	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	BIPLAB DEY	JC698978A	01 Apr 2017

NAIB SUBEDAR	SANTU HAZRA	JC698839W	01 Apr 2017
NAIB SUBEDAR	ANNADURAI P	JC699106K	25 Apr 2017###
###Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 17 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	VIJAY KUMAR SINGH	JC700938A	02 May 2017
Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 17 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	SANTHOSH KUMAR SINGH	JC698937W	27 Jun 2017
Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 17 without effect on pay & allces			
NAIB SUBEDAR	RAJESH SAHA	JC699153F	01 Aug 2017

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (NUR ASST)

HAVILDAR	SHANKAR UPADHAYAY	13984645F	NOW	JC702609H	01 JUL 2017
(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	KAMLESH KUMAR SINGH	13986982P	NOW	JC702499Y	01 APR 2017
HAVILDAR	GREESH KUMAR SHARMA	13987108F	NOW	JC702500H	04 APR 2017*
HAVILDAR	MATBAR SINGH	13987100P	NOW	JC702501L	05 MAY 2017*
HAVILDAR	PATIL JAYANT TUKARAM	13987282N	NOW	JC702502N	01 APR 2017
HAVILDAR	PANDE SHIVDUTT VIJAY BAHADUR	13987221W	NOW	JC702503W	01 APR 2017
HAVILDAR	DHARMENDRA KUMAR	13987121L	NOW	JC702504Y	01 APR 2017
HAVILDAR	RAMANAND YADAV	13987120H	NOW	JC702505F	01 APR 2017
HAVILDAR	OM PRAKASH YADAV	13987119N	NOW	JC702506K	01 APR 2017
HAVILDAR	JAPE SUNIL GENU	13987293A	NOW	JC702507M	19 APR 2017*
HAVILDAR	SURJEET KUMAR	13987241K	NOW	JC702523K	01 APR 2017
HAVILDAR	ANIL KUMAR	13987265N	NOW	JC702524M	03 APR 2017*
(* Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2017 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SHOUKAT ALI MOHAMMAD	13987384K	NOW	JC702525P	01 MAY 2017
HAVILDAR	RAMA MOHANA RAO CH	13987385M	NOW	JC702526X	01 MAY 2017

HAVILDAR	SK BAYAZEED SAHEED BABA	13987418M	NOW	JC702527A	01 MAY 2017
HAVILDAR	SHAIK YUSUF	13987419P	NOW	JC702528H	04 JUL 2017**
HAVILDAR	SURA CHANDRA MOHAN REDDY	13987420K	NOW	JC702529L	01 JUL 2017
HAVILDAR	SIVA GANGA REDDY DIDLA	13987424A	NOW	JC702610X	01 JUL 2017
(** Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2017 without effect on pay and allces)					
HAVILDAR	SANJEEV KUMAR DAS	13987389H	NOW	JC702655X	01 AUG 2017
HAVILDAR	DEVENDIRAN S	13987453P	NOW	JC702656A	01 SEP 2017
HAVILDAR	YOGENDER SINGH YADAV	13987402F	NOW	JC702791N	21 OCT 2017***
HAVILDAR	UJJWAL KR GHOSH	13987401Y	NOW	JC702792W	11 NOV 2017***
(***)Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2017 without effect on pay and allces)					

TO BE SUBSTANTIVE NAIB SUBEDAR (NUR TECH)

NAIK	K BALAMURUGAN	15414271H	NOW	JC701032F	27/07/2015*
NAIK	RAM DEV SAD	15415450P	NOW	JC701036X	13/07/2015*
(*Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 30 Jun 2015 without effect on pay and allces)					
NAIK	SEETA RAM MEENA	15411775L	NOW	JC702710H	25/10/2017**
NAIK	GOPAL SINGH	15414224L	NOW	JC702711L	07/10/2017**
NAIK	NARENDER SINGH	15416671N	NOW	JC702712N	07/10/2017**
NAIK	NITHIN KR	15418319H	NOW	JC702713W	05/10/2017**
NAIK	KONDAPA SATISH KUMAR	15418798P	NOW	JC702714Y	08/10/2017**
NAIK	BODDULURI DEVENDRA KUMAR	15420541H	NOW	JC702715F	05/10/2017**
NAIK	MRITYUNJOY DAS	15421716M	NOW	JC702716K	22/10/2017**
NAIK	VINOD BABU A	15421765P	NOW	JC702717M	05/10/2017**
NAIK	MATLA MALLIKARJUN	15421884L	NOW	JC702718P	05/10/2017**
NAIK	GITHEESH KUMAR KM	15422523Y	NOW	JC702719X	12/10/2017**
NAIK	PRAVEEN C KADAM	15422544P	NOW	JC702720M	06/10/2017**

NAIK	MINTOO RAM	15423788P	NOW	JC702721P	05/10/2017**
NAIK	BIBIN SEBASTIAN	15424108W	NOW	JC702722X	20/10/2017**
NAIK	VIJAYA BHASKARA REDDY B	15424198H	NOW	JC702723A	14/10/2017**
NAIK	SUNNY VERMA	15424245P	NOW	JC702724H	10/10/2017**
NAIK	P VENKATA SREENIVASULU	15424286Y	NOW	JC702725L	05/10/2017**
NAIK	RAJA BABU M	15424411X	NOW	JC702726N	06/10/2017**
NAIK	SHANKERLAL	15424432N	NOW	JC702727W	05/10/2017**
NAIK	SANTOSH JARALI	15424566M	NOW	JC702728Y	05/10/2017**
NAIK	NARENDER	15424591L	NOW	JC702729F	05/10/2017**
NAIK	MANJUNATH	15424607L	NOW	JC702730W	06/10/2017**
NAIK	SACHIDANANDA GOVINDAPPA AVARADHI	15424641L	NOW	JC702731Y	25/10/2017**
NAIK	ANTARJYAMI NAYAK	15424838F	NOW	JC702732F	05/10/2017**
NAIK	SIRSAT YOGESHVAR RAMNATH	15422396P	NOW	JC702733K	05/10/2017**
NAIK	SHER SINGH	15425269L	NOW	JC702734M	04/10/2017**
NAIK	SANJAY KUMAR	15425310W	NOW	JC702735P	05/10/2017**
NAIK	B GANGARAM	15425463A	NOW	JC702736X	05/10/2017**
NAIK	APORESH GHOSH	15425480A	NOW	JC702737A	06/10/2017**
NAIK	NADAF AZARUDDIN AKHTAR	15425511P	NOW	JC702738H	05/10/2017**
NAIK	SUNDER PAL	15425659N	NOW	JC702739L	05/10/2017**
NAIK	BHARAT SINGH KHADDA	15425668P	NOW	JC702740A	05/10/2017**
NAIK	HARSH VARDHAN SINGH	15425820X	NOW	JC702741H	05/10/2017**
NAIK	BINAY KUMAR	15426113A	NOW	JC702742L	05/10/2017**
NAIK	BIKASH KAR	15426142P	NOW	JC702743N	05/10/2017**

NAIK	LALIT MOHAN SUTERI	15426206P	NOW	JC702744W	05/10/2017**
NAIK	JITHIL M	15426403X	NOW	JC702745Y	05/10/2017**
NAIK	SHINDE RATNAKAR ANANDRAO	15426760A	NOW	JC702746F	06/10/2017**

NAIK	VIKRAM KUMAR	15427004A	NOW	JC702747K	16/10/2017**
NAIK	ARDHI SUNIL KUMAR	15425973F	NOW	JC702748M	04/10/2017**
NAIK	HARENDRA NATH SHUKLA	15427202L	NOW	JC702749P	05/10/2017**
NAIK	VINOTH KUMAR A	15427858A	NOW	JC702750K	11/10/2017**
NAIK	DHEERAJ KUMAR	15427952K	NOW	JC702751M	05/10/2017**
(**Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 06 Sep 2017 without effect on pay and allces)					

A.K.TEWARI
Under Secy.